FINANCIAL EXPRESS

#### **BITS LIMITED**

Regd. Off.: 711, 7th Floor, New Delhi House 27, Barakhamba Road, New Delhi-110001 CIN: L72200DL1992PLC241971

NOTICE Wednesday, 10th February, 2021 at 11:00 A.M reconsusy, rur rebruary, 2021 at 11:00 A.) at the registerio office of the company at 711.7, Floor, New Delhi House, 27, Barakhamb Road, New Delhi-110001 inter-ala, to conside approve & take on record the Un-audite Standalone and Consolidated Financia Results for the Quarter Ended 31\* Decembe 2020 and any other item of business as mentione in anenda.

This intimation is also available on the website the company at www.bits.net.in and on t websites of the Stock Exchanges where the shar of the company are listed at www.bseindia.co For Bits Limited

Place: New Delhi
Date: 04.02.2021 & Complany Secretary
& Compliance Officer

PAN INDIA CORPORATION LIMITED Regd. Off.: 711, 7<sup>th</sup> Floor, New Delhi Hous 27, Barakhamba Road, New Delhi-11000 CIN: L72200DL1984PLC017510

NOTICE Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Regulation 29 read with Regulation 47 and other applicable regulation of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015, the Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 10" February, 2021 at 02:30 PM. at the registered office of the company at 711, 7" Floor, New Delhi House, 27, Barakhamba Road, New Delhi-110001 interalia, to consider, approve & take on record the Un-audited Standalone and Consolidates Financial Results for the Quarter Ended 31 December, 2020 and any other item o business as mentioned in agenda. This infimation is also available on the website of the company at www.paindiacorp.com and or the company at www.paindiacorp.com and or

the company at www.panindiacorp.com and on the websites of the Stock Exchanges where the shares of the company are listed at www.besindia.com

For Pan India CorporationLimited Place: New Delhi Vijay Pal Shukla Date: 04.02.2021 Managing Director

PEARL APARTMENTS LIMITED PEARL APAR I MELTO (CIN: 1-70101DL 1979PL C009901)
Reg. T.70101DL 1979PL C009901)
Tol. No.: +91-11-23725826/27/28
Tol. 191-11-23725826/27/28 Website: www.pearlapartments.co.in Email Id: pearl.secretarial@pearlmail.co NOTICE

d with Regulat Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Obsclosure Requirements) Regulations, 2015 Notice is hereby given that a meeting of the Boar of Directors of Pearl Apartments Limited is scheduled to be held on Friday, the 12° February 2021 at the registered office of the Company situated at 903, Rohit House, 3, Tolstoy Marg, New Delhi-110001 to consider and approve th n-Audited Financial Results for the guarter and

Uni-vulned rinancial results for the quarter and infine months ended on December 31, 2020 pursuant to regulation 33 of SEBI (LODR), Regulations, 2015.

Regulations, 2015.

The said Notice may be accessed from the website of the Company at www.peariagartments.co.in and may also be accessed from the Stock Exchange website, where the quilty shares of the Company are fisted i.e. www.msei.in (Metropolitan Stock Exchange India Limited).

Place : New Delhi Date : 04.02.2021

Company Secretary & Compliance Officer JITF INFRALOGISTICS LIMITED REGD, OFF.: A-1, UPSIDC INDL. AREA. NANDGAON ROAD, KOSI KALAN, DISTT, MATHURA - 281 403

CIN: L60231UP2008PLC069245

NOTICE NOTICE pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 is hereby given that a meeting of Board of Directors of the Company will be held on Thursday, the 11th February, 2021 at Jindal ITF Centre, 28, Shivaji Marg, New Delhi - 110015. Inter-alia, to consider and approve the Unaudited (Standalone & Consolidated) Financial

Results of the company for the 3<sup>rd</sup> quarter ended 31 Dec 2020. Pursuant to the Code of Conduct for Prevention of Insider Trading under SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations 2015, Trading Window shall remain closed up to 48 hours from the disclosure of above Financial Results.

This Notice is also available on the website the Company www.jindalinfralogistics.com and on the website of Stock Exchanges where the shares of the Company are listed namely, at www.bseindia.com and

www.nseind For JITF INFRALOGISTICS LIMITED

Place: New Delhi Company Secretary Date: 03rd February, 2021 ACS: 19819

## MINDA INDUSTRIES LIMITED

2 CIN: L74899DL1992PLC050333 Regd. Office: B-64/1, Wazirpur Industrial Area Delhi-110052 Website: www.unominda.com UNO MINDA E-mail: investor@mindagroup.com Tel.: +91 11 4937 3931, +91 124 2290 427/28 Fax: +91 124 2290676/95

#### Notice of Record Date for Interim Dividend

Notice is hereby given that the Board of Directors at their meeting held or 4th February, 2021, has declared an interim dividend of Rs. 0.35 per share i.e. 17.50% on equity shares of face value of Rs. 2 each, fully paid up, for the Financia

The Board has further fixed Tuesday, 16 February, 2021, as the "Record Date" t determine eligible shareholders, entitled to receive the interim dividend, declared a the aforesaid meeting.

Place: Delhi Date: 4th February 2021

MINDA INDUSTRIES LTD Tarun Kumar Srivastav Company Secretary & Compliance Office

# ANANT RAJ LIMITED

(Formerly ANANT RAJ INDUSTRIES LIMITED) CIN: L45400HR1985PLC021622 Regd. Office: Plot No. CP-1, Sector-8, IMT Manesar, Haryana-12205 Head Office: H-65, Connaught Circus, New Del Anant Raj Limited Ph.: 011-43034400, 011-23324127, Telefax: 0124-4265817 NOTICE

Pursuant to the provisions of Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. Notice is hereby given that a meeting of the Board Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, the 12th day of February, 2021, at the Head Office of the Company at H-65. Connaught, Circus, New Delhi-110001, inter alia to consider and approve the unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) for the quarter and nine months ended December 31, 2020.

This information is also available on the website.

This information is also available on the website of the Company at www.anantrajlimited.com and on the websites of the Stock Exchanges where Company's shares are listed it. BSE Limited at www.bseindla.com and the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindla.com.

For Anant Raj Limited

Place: New Delhi Date: 04-02-2021 sd/-Manoj Pahwa (Company Secretary) M. No. A-7812

## Nalwa Sons Investments Limited

CIN: L65993DL1970PLC146414

Regd. Office: 28, Najafgarh Road, Moll Nagar Industrial Area, New Delhi-110015

Phone No. (011) 45021654, Fax No. (011) 45021982

Email Id.: investorcarri@nalwasons.com. Website: www.nalwasons.com.

#### NOTICE

n compliance with Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requiremen Regulations, 2015, this is to inform that a meeting of the Board of Directors of the Company be held or Saturday, 13° February, 2021 at Branch Office of the Company at O.P. Jindal Mai issar 125005, inter alia, to consider and approve the unaudified standatione and consolidat inancial results of the Company for the quarter and nine month ended 31° December, 2020. This Notice is also available on the website of the Company www.nalwasons.com and also he websites of the stock exchanges www.nseindia.com and www.bseindia.com.

(Ajay Mittal Company Secretary

## Mahaan Foods Limited

Regd. Office: M-19, 1st Floor, M-Block Market, Greater Kailash-II New Delhi - 110048, Tel: 011-43107200, Fax: 011-43107250, E-mail: info@mahaanfoods.com, Website: www.mahaanfo
CIN: L15419DL1987PLC350285

#### NOTICE

Notice is hereby given that Pursuant to the provisions of Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015, the Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, the 12th day of February, 2021 to consider and approve the Unaudited Financial Results for the Quarter Endec 31<sup>st</sup> December, 2020.

Further, in accordance with the company's code of conduct for prevent Insider Trading as per Regulation 9 of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations 2015 the Trading Window for dealing in Securities of the company which had been closed earlier shall remain closetill the expiry of 48 hours after the date of declaration of the aforestated results. The said notice is also available at company's website at www.mahaanfoods.com

For Mahaan Foods Limite

Avushi Vijav

Date: 04/02/2021

Date : February 3, 2021

Company Secretary & Compliance Offi Place: New Delhi M.No.- A55853

### **DEUTSCHE BANK AG**

Ground & 14th Floor, Hindustan Times House, 18-20, Kasturba Gandhi Marg New Delhi - 110001 **PUBLIC NOTICE - AUCTION CUM SALE OF PROPERTY** 

Sale of Immovable Assets under the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 s, the undersigned is the Authorised Officer of Deutsche Bank AG, India, a banking company incorporated and existing under the Laws of Federal Republic of Germany wided office in Taurussariage 12, D-60325 Frankfurf. Germany and acting through its branch office in India at Ground & 14th Floor, Hindustan Times House, 18-20, Kasturf on New Delhi - 11003 \*\* Powerba Republic of Sermany and acting through its branch office in India at Ground & 14th Floor, Hindustan Times House, 18-20, Kasturf on New Delhi - 11003 \*\* Powerba Republic of Sermany and acting through its branch office in India at Ground & 14th Floor, Hindustan Times House, 18-20, Kasturf on New Delhi - 11003 \*\* Powerba Republic of Sermany and Advisory and WHEREAS, the und s registered office in Tauriusariego 14, Sandhi Marg New Deihi - 110001 ("Deutsche Bank AG"),

The Bank had under Section 13 (2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("Act") issued a demand Notice on 31s December, 2018 calling upon the Borrower(s) i.e. 1. Mr. Rashpal Singh Todd 2. Mrs. Zenica Lifestyle Private Limited 3. Mrs. Zenica Cars India Pvt Ltd 4. Mr. Mandhir Singh 5. Mrs. Zenica Auto Services Pvt Ltd, Unit No. - C-1. Ground Floor, Orient Bestech Business Tower, Village khandsa, Sector-34, Gurgaon - 122001 (Haryana), 2nd Floor, Orichid Centre, Gol Course Road, Sec-53, Gurgaon-122001 (Haryana) & E-26, South City-1. Gurgaon-122001 (Haryana) ("Borrowers"), whereby, the Borrower(s) were called upon to rapay the publishanding amount of Rs. 15,07,10,121.47 (Rupees Fifteen Crore Seven Lakhs Ten Thousand One Hundred Twenty One And Paise Forty Seven Only), this is the balance payment as on 17th November, 2018 and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the demand notice.

outstanding amount or ks. 15,07,101, 121-47 (Rupees Pinteen Cryor Seven Lakins feel Industrial Control Control

Lot No.	Property Address			Earnest Money Deposit	
1.	Unit No C-1, Ground Floor, Orient Bestech Business Tower, Village khandsa Sector-34, Gurgaon - 122001 (Haryana)	Commercial Unit, with area of 15,563 Sq. Ft. with 4 open parking (in the front) & 12 car parking in the basement	8,17,00,000.00	81,70,000.00	

The particulars in respect of the Property have been stated to the best of the information and knowledge of the Bank, who shall however not be responsible for any error, misstaten or omission in the said particulars. The Tenderer(s) / Offerer(s) / Prospective Bidder/Purchaser(s) are therefore requested, in their own interest, to satisfy himself / themselves in with regard to the Property before submitting the tenders. To the best of the Bank's knowledge, there are no encumbrances on the Property and Bank has the right of sale of Proper pompliance with due process of law.

with regard to the Property before submitting the tenders. To the best of the Bank's knowledge, there are no encumbrances on the Property and Bank has the right of sale of Property in compliance with due process of law.

TEMS & CONDITIONS OF PUBLIC AUCTION:

1. The property can be inspected on 20th February' 2021 between 11 AM to 5 PM.

2. The bids shall be submitted in a sealed envelope to the office of undersigned along with a Demand Draft (Pay Order! Online Transfer of Rs. 81,70,000)- (Rupees Eighty One Lakhs Seventy Thousand Only) towards the Earnest Money Deposit ("EMD") favoring. "Ms. Deutsche Bank EMD" so as to reach the office of Deutsche Bank AG at 14th Floor, Hindustan Times House, 18-20. (Kasturbe Gandhi Marry New Delhi-11000), on or before 10th March, 2021 by 2:00 pm.

3. Offers that are not duly filled up or offers unaccompanied by the EMD or received after the date and time prescribed herein will not be considered / treated as valid offers, and accordingly shall be rejected. No interest shall be payable on the EMD.

4. Along with bid form the proposed bidder shall also attach his/her identity proof, proof of residence (such as copy of the PAD acrd dissued by the Income Tax department.

5. The Property would not be sold below the reserve price.

6. On the date of sale, all the bids duly received would be opened and the bid of the highest bidder, provided it is above the reserve price, may be accepted by the Bank. However the bidders personally present at the auction site shall have the right to accept such higher bid, upon confirmation of the sale by the Bank, the purchaser will be required to pay deposit of 25% (twenty-live percent) of the sale price, after admit and the Bank shall have the right to accept such higher bid, upon confirmation of the sale by the Bank, the purchaser will be required to pay deposit of 25% (twenty-live percent) of the sale price, after admit and the Bank shall have the right to accept such higher bid, upon confirmation of the sale by the Bank, the purchaser will be requ

purchaser.

13. The Bank is not bound to accept the highest offer or any or all offers and the Bank reserves its right to reject any or all bids, without assigning any reasons.

14. No person other than the bidders themselves or their duly authorised representative shall be allowed to participate in the sale proceedings.

15. In case all the dues together with all costs, charges and expenses incurred by the Bank are tendered by the above named Borrower at any time before the date fixed for sale of the property under Sec 13(8) of the Act, then the Property will not be sold and all the bids received from the prospective bidders shall be returned to them without any liability/claim against the Bank. 16. The Hon'ble Delhi High Court vide order dated 13.01.2020 in Writ Petition No. 393 of 2020 directed that before finalising any transaction of Sale, the Bank to seek prior app

This Notice is also notice to the abovesaid Borrower under Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Sd/- Vishal Charan, Authorised Officer DEUTSCHE BANK AG Place: New Delh



# PNC INFRATECH

Registered Office: NBCC Plaza, Tower II, 4th Floor, Pushp Vihar, Sector-5, New Delhi-110017 CIN: L45201DL1999PLC195937, Email: complianceofficer@pncinfratech.com, Website: www.pncinfratech.com

## EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2020

			Standalone			Consolidated	
S. No.	Particulars	Quarter Ended (31.12.2020) un-audited	Quarter Ended (31.12.2019) un-audited	Nine Months Ended (31.12.2020) un-audited	Quarter Ended (31.12.2020) un-audited	Quarter Ended (31.12.2019) un-audited	Nine Months Ended (31.12.2020) un-audited
1	Total Income from Operations	1,34,668.08	1,23,235.53	3,33,931.77	1,61,692.69	1,40,966.27	4,01,106.69
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	15,936.99	11,278.85	35,383.75	23,686.87	9,825.08	48,677.14
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	15,936.99	11,278.85	35,383.75	23,686.87	9,825.08	48,677.14
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	10,317.25	7,713.94	23,256.09	17,614.34	6,690.43	34,654.61
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	10,367.87	7,690.25	23,407.96	17,678.78	6,666.62	34,848.26
6	Equity Share Capital	5,130.78	5,130.78	5,130.78	5,130.78	5,130.78	5,130.78
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	9	-	8	2	19	14
8	Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinued operations) -		**			Fa	
	1. Basic:						
	2. Diluted:	4.02	3.01	9.07	6.87	2.61	13.51

## Notes:

The above is an extract of the detailed format of Quarter/ Nine Month Ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter/ Nine Month Ended Financial Results are available on Stock Exchanges website (www.bseindia.com www.nseindia.com) and Company's website (www.pncinfratech.com).

-

2) The above standalone/consolidated results, reviewd by the Audit Committee, were approved by the Board of Directors at its meeting held on February 03, 2021.

For PNC Infratech Ltd. Chakresh Kumar Jain Managing Director (DIN: 00086768)



#### BHARAT SEATS LIMITED

Regd. Office: 1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi- 110070 CIN: L34300DL1986PLC023540

WEBSITE: www.bharatseats.com; E-mail: seats@bharatseats.net ne: +91 9643339870-74: Fax: 0124-2341188

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2020

	(13. III taki is except per sitate data)								
SI.	Particulars		Quarter ende	d	Nine Mon	ths Ended	Year ended		
No.		31.12.2020	30,09,2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.03.2020		
	li	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)		
-10	Total Income from Operations	17,690.45	15,043.24	14,465.93	34,905.18	46,569.04	59,065.88		
2	Net Profit/(loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	884.91	442.24	315.58	(77.71)	1,284.33	1,222.00		
3	Net Profit/(loss) for the period before tax(after Exceptional and/or Extraordinary items)	884.91	442.24	315.58	(77.71)	1,284.33	1,222.00		
4	Net Profit/(loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	661.97	330.67	233.26	(58.86)	1,314.11	1,251.89		
5	Total Comprehensive Income/(loss) for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]		331.03	237.99	(57.80)	1,328.26	1,253.30		
6	Equity Share Capital	628.00	628.00	628.00	628.00	628.00	628.00		
7	Other Equity (Reserves) (excluding Revaluation Reserve)as shown in the Audited Balance Sheet of the year			-	•		10,702.65		
8	Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (forcontinuing and discontinued operations) (In Rs.)-								
	(a) Basic (Rs.)	2.11	1.05	0.74	(0.19)	4.19	3.99		
	(a) Diluted (Rs.)	2.11	1.05	0.74	(0.19)	4.19	3.99		
_									

- a). The above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the guarter and nine months ended 31" December 2020 file The above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the quarter and nine months ended 31" December 2020 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disdosure Requirements). Regulations, 2015 The full format of the Financial Results for the quarter and nine months ended 31" December 2020 are available on the websites or the Stock Exchange(s), www.bseindia.com, and on the Company's website www.bharatseats.com'. The above financial results of Bharat Seats Limited ("the Company") have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies(Indian Companies).
- Accounting Standards) Rules, 2015 and the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2016 and relevant amendment rule
- The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting he on 04 February, 2021. The above financial results of "Bharat Seats Limited" for period/ quarter ended December 31, 2020 subjecte to limited review by the statutory auditors of the Company in accordance with the Standard on Review Engagements (SRE) 241 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Place: Gurugram Date: February 04, 2021

(ROHIT RELAN) Chairman and Managing Directo

HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED Registered Office: Radhika, 2nd Floor, Law Garden Road, Navrangpura, Ahmedabad-380009

Branch Office: HDB Financial Services Limited, Khasra No. 47, Opposite Dussehra Ground, Budela, Near Oxford School, SARFAESI ACT, 2002

Vikaspuni, New Delhi-110018

E-AUCTION SALE NOTICE UNDER

Brainch Office: PLID Financial services Limited, Maisra (No. 47, Oppose) Ususerial Scioune, Buderia, Mark David School, SARFAESTACT, 2002
Vikaspuni, New Delhi-110018

THE UNDERSIGNED AS AUTHORIZED OFFICER OF HOB FINANCIAL SERVICES LIMITED HAS TAKEN OVER POSSESSION OF THE
FOLLOWING PROPERTY PURSUANT TO THE NOTICE ISSUED UIS 13(2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF THE
FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 IN THE FOLLOWING LOAN ACCOUNTS WITH A RIGHT TO
SELL THE SAME ON "AS IS WHERE IS BASIS" AND "AS IS WHAT IS BASIS" FOR REALIZATION OF COMPANY'S DUES.

BORROWER/S & GUARANTOR/S NAME & ADDRESS     TOTAL DUE+ INTEREST FROM	DESCRIPTION OF THE PROPERTY	1. DATE & TIME OF E- AUCTION 2. LAST DATE OF SUBMISSION OF EMD 3. DATE & TIME OF THE	1. RESERVE PRICE 2. EMD OF THE PROPERTY
M/S J B K DEVELOPERS PRIVATE LIMITED (Through it's Directors)B-21-22. Sector 16. Notids Ultrar Pradesh -201301 ALSO AT M/S J B K DEVELOPERS PRIVATE LIMITED (Through it's Directors) B-30, Gama-1, Greater Notids, Ultrar Pradesh-201310 ALSO AT M/S J B K DEVELOPERS PRIVATE LIMITED (Through it's Itsdirectors) 99, Patpagaran, New Delhi-110091 5mt. Kavita Chaudhary B-21-22. Sector 16, Notids, Ultrar Pradesh-201301 ALSO AT Smt. Kavita Chaudhary B-30-30, Gama-1, Greater Notids, Ultrar Pradesh-201310, M.SO AT Smt. Kavita Chaudhary B-30, Gama-1, Greater Notids, Ultrar Pradesh-201310, M.SO AT Smt. Kavita Chaudhary B-30, Gama-1, Greater Notids, Ultrar Pradesh-201310, M/S AD Smt. Notids, Ultrar Pradesh-201310, M/S AD	parcel of the property bearing plot No. –8-21-22, Sector-16, Near Sector-16 Metro Station, Noida-201301 admeasuring 10953 Sq. Ft. And recorded in the name of R.D. Finlease Private L i m i t e d., Bounded by North-Road, South-Plot No. 20, East-Road South-Vest Mest-	24.02.202110.30 AM TO 1.00AM WITH UNLIMITED EXTENSION OF SMINUTES 10.30 AM TO 11.30AM WITH FURTHER EXTENSION OF SMINUTES 2) LAST DATE OF SUBMISSION OF FEMD WITH KYC 19.02.2021 TILL SPM 3) DATE OF INSPECTION:	(IN INR) :

- he intending bidders are advised to visit the Branch and the properties put up on Auction, and obtain necessary information regarding charges, encumbrances. The purchaser shall make his own enquiry and ascertain the additional charges, encumbrances and any third party interests and satisfy himselfhreselfhistelf in all sepacts thereto. All statutory dues like property taxes, electricity dues and any other dues, if any, attached to the property should be ascertained and paid by the successful bidder(s)prospective purchaser(s). The bidder(s)prospective purchaser(s) are requested, in their own interest, to satisfy himselftherselfithself with regard to the above and the other relevant details pertaining to the above mentioned property/Properties, before submitting the bids.
- requested, in their own interest, to satisfy himself/herselfitself with regard to the above and the other relevant details pertaining to the above mentioned property/Properties, before submitting the bids.

  "mas & Conditions of Online Tender/Auction"

  The auction sale shall be "online -auction" bidding through website https://www.bankeauctions.com Or Auction Tiger Mobile APP on the dates as mentioned in the table above with further Extension of S Minutes.

  The Interested bidders shall submit their EMD through Web Portal: https://www.bankeauctions.com (the user ID & Password can be obtained free of cost by registering name with https://www.bankeauctons.com/ through Login ID & Password. The EMD shall be payable through REFT in the account mentioned above. Arter Registration (One Time) by the bidder in the Web Portal, the intending bidder proteinser is required to get the copies of the following documents uploaded in the Web Portal before the Last Date & Time of submission of the Bid Documents viz. i) Copy of the NEFT/RTGS Challan or Demand Draft. i) Copy of PAN Card; if IP Prot of Identification/ Address Prof (KYC) viz. settlested copy of Voter ID Card/ Driving License/ Passport etc.; without which the Bid is liable to be rejected. UPLOADING SCANNED COPY OF ANNEXURE-II & III (can be downloaded from the Web Portal: https://www.bankeauctions.com/ AFTER DULY FILLED UP & SIGNING IS ALSO REQUIRED. The interested bidders who require assistance in creating Login ID & Password, uploading data, submitting Bid Documents, Training/Demonstration be commonated from the Yeer Portar, interstwink plantage compared to the property of the prope
- The intending purchaser/bidder is required to submit amount of the Earnest Money Deposit (EMD) by way of Demand Draft(PAY ORDER drawn on any nationalized or scheduled Commercial Bank in favor of "HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED" payable AT PAR/New Delhi or NEFT/RTGS in the account of "HDBFS GENERAL COLLNS"; Account No 00210310002748; IFSC Code-HDFC0000021; MICR CODE: MICR500240002; Branch: LAKDIKAPUL, HYDERABAD; on or before date and time mentioned above (Please refer to the details mentioned in table above) and register their name at https://www.bankeauctions.com. and get user ID and password free of cost and get training on e-Auction from the service provider. After their Registration on the web-site, the intending purchaser/bidder is required to get the copies of the following documents uploaded {1. Copy of the NEFT/RTGS challan/IDD copy/Pay order; 2. Copy of PAN card and 3. Copy of protof address (Passport, Driving License, Votef's 1-Card or Aadhar Card, Ration Card, Electricity Bill, Telephone Bill, Registered Leave License Agreement(); on the website before or by the last date of submission of the EMD(s) as mentioned in the table above and also submit hardcopy thereof at the Stanch mentioned hereinsabove.
- Thereof at the Branch mentioned hereinabove.

  Bid must be accompanied with EMD (Equivalent to 10% of the Reserve Price) by way of Demand Draft/ Pay order in favour or "HDB FRANCIAL SERVICES LIMITED" payable AT PAR/ New Delhi or NEFT/RTCS in the account of "HDBFS GENERAL COLLNS"; Account No 00210310002748; IFSC Code- HDFC0000021; MICR CODE: MICR500240002; Branch: LAKDIKAPUL, HYDERABAD; on or before
- date and time mentioned above.
  Bids that are not filled up or Bids received beyond last date will be considered as invalid Bid and shall be summarily rejected. No interest shall be glad on the EMD. Once the bid is submitted by the Bidder, same cannot be withdrawn. If the bidder does not participate in the bid process, EMD deposited by the Bidder shall be forfeited without further recourse. However, EMD deposited by the unsuccessful bidder shall be refunder.
- winout interest. The bid price to be submitted shall be above the Reserve Price alongwith increment value of Rs. 10.000\(^{1}\) (Rupees Ten Thousand only) and the bidder shall further improve their offer in multiple of Rs. 10.000\(^{1}\) (Rupees Ten Thousand only). The property shall not be sold below the Reserve
- Price set by the Authorised Officer:

  The successful bidder is required to deposit 25% of the sale price (inclusive of EMD) immediately but not later than next working day by Demand Draft drawn in favour of of "HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED" payable AT PARI NEW DELHI or NEFT/RTGS in the account of "HDBFS GENERAL COLLNS"; Account No 00210310002748; IFSC Code-HDFC0000021; MICR CODE: MICR500240002; Branch: LAKDIKAPUL, HYDERABAD and the balance amount of sale price shall be paid by the successful didder within 15 days from the date of the primation of sale by the Company, The EMD as well as Sale Price paid by the interested bidders shall carry no interest. The deposit of EMD or 10% of sale price. whatever may be the case shall be forfeited by the Company, if the successful bidder fails to adhere to terms of sale or commits any default.

  On compliance of terms of Sale, Authorised officer shall issue "Sale Certificate" in favour of highest bidder. All the expenses related to stamp duty

- (6) On compliance of terms of Sale, Authorised officer shall issue "Sale Certificate" in favour of highest bidder. All the expenses related to stamp duty, registration charges, conveyance, TDS etc. to be borne by the purchaser.
  (9) Company does not take any responsibility to procure permission i NDC from any authority or under any other law in force in respect of property offiered or any other duses i.e. outstanding water/electricity dues, property tax or other charges; if any.
  (10) The successful bidder shall bear all expenses including pending dues of any Development Authority, if any! taxes! utility bills etc. to the Municipal Corporation or any other authority agency and fees payable for stamp duty irregistrator fees etc. for registration of the Sale Certificate.
  (11) The Authorised Officer reserves the absolute firight and discretion to accept or reject any or at the offersbush or adjustment leads to the sale without assigning any reason or modify any terms of sale without any prior notice. The immovable property shall be sold to the highest blidder. However, the Authorised Officer reserves the absolute discretion to allow interes bidding; if deemed necessary property to be sold except of the Company.
  (12) To the best of its knowledge and information, the Company is not aware of any encumbrances on the property to be sold except of the Company. However, interested bidders should make their own assessment of the property to their satisfaction. The Company does not in any way guarantee or makes any representation with regard to the fitness/title of the aforesaid property. For any other information, the Authorised Officer shall not be held responsible for any charge, lien, encumbrances, property tax or any other dues to the Government or anybody in respect of the alteresaid property.
- aforesaid property.

  13) Further interest will be charged as applicable, as per the loan documents on the amount outstanding in the notice and incidental expenses, costs.
- arbestan propers.

  3F Further interest will be charged as applicable, as per the loan documents on the amount outstanding in the notice and incidental expenses, costs, etc. is due and payable till its actual realization.

  (44) The notice is hereby given to the Borrower(s) / Mortgagor(s) to remain present personally at the time of sale and they can bring the intending buyer/purchasers for purchasing the immoveable property as described hereinabove, as per the particulars of the Terms and conditions of sale.

  (5) Online E-auction participation is mandatory in the auction process by making application in prescribed format which vasiable along-with the offerthender document on the website. Bidders are advised to go through the website https://www.bankeauctions.com/ for detailed terms and conditions of auction sale before submitting their bids and taking part in e-auction sale proceedings. Online bidding will take place at web-site of organization as mentioned hereinabove, and shall be subject to the terms and conditions contained in the territor document. The Tender Document and detailed Terms and Conditions for the Auction may be downloaded from the website https://www.bankeauctions.com or the same may also be collected from the concerned Branch office of HDB Financial Services Limited. A copy of the Bid formal gow with the enclosure submitted online (also mentioning UTR Number) shall be handed over to Mr. Vikas Anand Mob. No. 971010384; at HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED. ADDRESS-: Khassa no. 47. 2nd Floro, Cyposite Dusselving Ground, Vikaspun, New Delhi-110018 on or before date and time mentioned above, (Please refer to the details mentioned in table above).

  (16) The property shall be sold on "As is White ris Basis" and "As is What is Basis" condition and the intending bidder should make discreet enquiries as regards—encumbrance, charges and encumbrances over the property of any authority besides the Company's charges and should satisfy themselves about the title, extent, quality and quantity of the property of
- The infending bidder shall indemnify the tenants as well as the Company in this regard. The purchaser shall take necessary action for evitenant / settlement of tenant only in accordance with the Law. The Company presses into service the principle of caveat englor. This publication is also a 15' (Fifteen) days' notice to the Borrower / Mortgagor / Guarantors of the above said loan account pursuant to n. 8(6) and Rule 9 of Security Interest. (Enforcement) Rules 2002, to discharge the liability in full and pay the cube use as mentioned above also do that the source of the state of the s
- Place: New Delhi, Date: 03.02.2021 AUTHORISED OFFICER, HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED

New Delhi

**\_\_\_\_\_** 

Date: February 03, 2021 financialen.epar.in





BEFORE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL - III, DELHI 4TH FLOOR, JEEVAN TARA BUILDING, PARL JAMENT STREET. INVOICE under Section 19(4) of the Recovery of Debts Due to Sants and Firmatical institutions Act 1959 read with Fluid 12 & 13 of the Debts Recovery Tribuson (Processions Rules) 1950 in CICIG BANK LTD. Accelerated Company of the Company of the CICIG BANK LTD. Accelerated Company of the Compan ICICI BANK LTD......Applicant Vs. SH. UMESH RANA....Defendent

Rana S/o. Sh. Sultan Singh H.No. 6570, Sector-sant Kunj, New Delhi-110070 e above named annihant r case of your failure to appear on the a fore this Tribunal, the case will be hear

anthoned say before this Tribrual, the case will be heard and dotted in your before so, chastlen, all the matter will be black to the control of the control ອ inder my hand and seal of this Tribunal on this the 21st ຕ: 2020

By Order of this Tribunal
Assistant Registrar, DRT-III, New Delhi

## **#्रि**फ्लैक्स फूड्स लिमिटेड CIN: L15133UR1990PLC023970

CIN: १.15133UR1990PLC023970 जी. कार्या: नाल टप्पर इंडसिस्ट्रयल एरिया, पी. ओ रेशम मजरी, हरिद्वार रोड, देश्साहून (उत्तराखण) फोन: 10135-2499234, फैक्स: 10135-2499235 बेबसाइट: www.flexfoodslid.com इमेल: secretarial@uflexitd.com

#### सचना

तदद्वारा सूचित किया जाता है कि फ्लैक्स हड़स लिमिटेड के निदेशक मंडल की ठक बुधवार, 10 फरवरी, 2021 को नोएडा आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिसम्बर, 2020 के समाप्त तिमाही एवं नौ माह के लिये कम्पनी अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों को अनुमोदित एंव अभिलेखित किया जाएगा। जानकारी कंपनी की वेबसाइ www.flexfoodsltd.com आर

वेबसाइत स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है। पलैक्स फूड्स लिमिटेड के लिये हस्ताः/-राजेश धीर

कम्पनी सचिव FCS No. : 3060 ए–64, ऑर्डनैन्स अपार्टगेन्ट्स, स्थान : नई दिल्ली ब्लॉक–एच, विकासपुरी, तेथि : 04.02.2021 नई दिल्ली–110018

BEFORE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL - III. DELHI 4TH FLOOR, JEEVAN TARA BUILDING. PARLIAMENT STREET. NEW DELHI-H1000H. VIOLEN DEBT STREET Notice under Section 1941) of the Recovery of Debts Due to Bariss and Financial Institutions Act. 1933 fead with Rule 12 & 13 of the Betts Recovery Titlural (Procedure Rules) 1993 in the matter of CAND. 747/2019

the matter of OA NO.: 747/2019
[CICI BANK LTD.....Applicant Vs.
ALPTARU HOUSING PVT. LTD. & ORS. ..Defendents
Kalpitaru Housing Pvt. Ltd. E-69, Kalkaji, New Delh "Saha Infrageth PK, 10; Prot not 184, on Irou, cours." Inc.
"ressway Mode, 20; Sumuya Kumar Saha G-22; Sectorressway Mode, 20; Sumuya Kumar Saha G-22; Sectorress the above mand applicant. has instituted a case
instituted in the second of the second o

พอคอส ven under my hand and seal of this Tribunal on this the 24th of Dec. 2020. By Order of this Tribunal
Assistant Registrar, DRT-III, New Delhi



Regd. Office: 17, Hemkunt Colony New Delhi – 110 048 T & F: +91 11 4656 7575 Email: secretarial@ettgroup.in Web: www.ettgroup.in

## **NOTICE**

Notice is hereby given in terms of Regulation 29(1)(a) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Thursday**, **February 11**, **2021** at 4:00 P.M. at UB. Express Trade Towers 3, Plot no. 79, Sector 34 Gurugram, Haryana - 122 001 inter alia, to consider and take on record the unaudited financial results of the Company for the quarter ended December 31, 2020.

Date: 04.02.2021 Place: New Delhi

For ETT Limited Puniti Sharma Compliance Officer



ईमेलः info@maanaluminium.in

सुचना स्टॉक एक्सवैंज(जों) के साथ सेवी (सूचीयन दायित्व एवं उद्दायटन अपेका) वितियमन, 2015 के वितियमन ४७ के साथ पतित्र वितियमन २० के अनुप्यलन में एतदृद्वारा सूचित्र किया जाता है कि निदेशक मंडल की एक बैठक शनिवार, 13 फरवरी, 2021 को 4/5, 1ल अठक रामचार, 13 नरपरा, 2021 का 495, (रा 3, आराम अती रोड, नई दिल्ली-110002 में 12,30 . में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के १ 31 दिस., 2020 की समाप्त तिमारी के लिए मनी के अनेकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार मोदन कर उसे अभिलेख में लिए जाएंगे तथा एंजेण्डा

अनुमादन कर उसे ऑपलख म लिए जाएग वचा एकण्डा के अत्य मोदों पर विचार की जाएगी। आपको वह भी सुचिन कित्या जाता है कि कम्मनी की प्रतिमृतियों में इन्साबड़र ट्रेडिंग निषेप के लिए कम्मनी की आचार स्विता के अनुसार सभी निदेशकों/ ऑपकारियों/वीनॉनिंट्ट कम्मेजारियों/ वीनॉनिंट्ट व्यक्तियों के लिए ट्रेडिंग विच्छे 01 जनवरी, 2021 से वर्गु के विजीय पिणामों की घोषणा के बाद 48 घंटे तक बंद स्वेरों

' जानकारी कम्पनी की वेबसाईंट अर्थात् www.maanaluminium.in तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाईट अर्थात् बीएसई लिमिटेड एससचेंजों को बेबसाइट अधात आएक त्यानच्य (www.bseindia.com) तथा नेशनल स्टॉक एससचेंज ऑफ इंडिया लि. (www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध है। मान एल्युमिनियम लिमिटड के लिए हस्ता./-

Criminal Courts, Ludhiana NEXT DATE: 08-03-2021

Kotak Mahindra Bank Munish Kumar

Notice To: munish Kumar S/o Not Known K - 136 Gali No 3, K- block , Gautam Vihar Delhi- 110053

Vihar Delhi-110053
whereas it has proved to the satisfaction of this
court that you, the above named accused//
accused persons can't be served in the
ordinary way of service. hence this
proclamation under \$20 code of criminal
procedure is hereby issued against you with a
direction that you should appear personally
before this court on 08-03-2021 at 10.00 a.m. or
within 30 days from the date of publication of
this proclamation. take notice that, in case of
default on your part to appear as directed
above the above said case will be heard and
determined as per law, in your absence.

determined as per law, in your absence.
for details logon to: https://highcourtchd.gov.in
res=district\_notice&district=ludhiana
JMIC Ludhiana

केआरए लिजिंग लिमिटेड

CIN: L65993DL1990PLC039637 E: kraleasing1990@gmail.com; W: www.kraleasing.com पंजीकृत कार्यालय: सी-20, एसएमए को—आपरेटिव इ-डिस्ट्रयल इस्टेट, जी करनाल रोड, दिल्ली-110033 कारपोरेट कार्यालयः प्लॉट नo 3 सेक्टर-11 आईएमटी मानेसर, गुरूग्राम, हरियाणा -12205 दूरभाष: 0124-4746817

सूचना

. सेबी के विनियमन 29 साथ में पठित विनियम 47 (सूची दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्कतायें) विनियमन 2015, के अनुसरण में एतदद्वारा सुचना प्रदान की जाती है कि 31 दिसम्बर 2020 को समाप्त कम्पनी के तिमाही एवं नौमाही के अनुअकेक्षित वित्तीय परिणामा पर अन्य व्यवसायिक कार्यसूची तथ्यों के साथ विचार एवं स्वीकृत एवं रिकार्ड में ग्रहण करने एवं अन्य व्यवसाय कार्यसूची हेतु कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 12 फरवरी, 2021 को साय 03:00 बजे कम्पनी के कारपोरेट ार्यालय **प्लॉट न० 03, सेक्टर-11, आईएमटी** 

मानेसर, गुरूग्राम, हरियाणा-122050 में आयोजित की जायेगी। 'कम्पनी के इक्वीटी शेयरधारक मंडल की सुनिश्चित बैठक में चर्चा होने वाले अपने . श्न/कार्यसूची, यदि कोई हों, वर्ड फाइल मे ।पने नाम, पते, फोलियो न०/डीपी आईडी वं ग्राहक आईडी के साथ शेयर धारित संख्या साथ kraleasing1990@gmail.com पर

गमंत्रित है। नंडल की बैठक की सचना कम्पनी की वेबसाइट www.kraleasing.com एवं स्टॉक एक्सचेन्ज की वेबसाइट www.msei.in पर भी उपलब्ध है। बोर्ड के आदेशानसार

कृते केआरए लिजिंग लिमिटेड रिधिमा गुप्ता

कम्पनी सचिव कम अनुपालन अधिकारी सदस्यता संख्या:61965

अपुरवा लिजिंग फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंन्ट कम्पनी दिमिटेड CIN No. L74899DL1983PLC016713 E: apporvaleasing@gmail.com; W: www.apoorvaleasingfinance.wi ग्रीकृत कार्यालय: तीसरी मंजिल, 13/331, र्ग कार्याली, दिल्ली-110031

021 को दोपहर 02:00 बजे कम्पनी के कारपोरे

2021 का दापहर 02:00 बज कम्पना क कारपारट कार्यालय में आयोजित की जायेगी। "कम्पनी के इक्बीटी शेयरधारक मंडल की सुनिश्चित बैटक में चर्चा डोने चाल जपने प्रमन, कार्यसूची, यादि कोई हों, वडे कारह में अपने नाम, पते, फोलियो न०/क्षीपी आईबी एवं प्राहक आईबी के साथ शेयर ..... ব ওব। ক' স্বাহ <u>apoorvaleasing@gmail.com</u> पर आमंत्रिर है।"

www.apoorvaleasingfinance.com

बोर्ड के आदेशानुस तिजिंग फाइनेन्स एप कृते अपुरवा लिजिंग फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड

तिथि: 04 फरवरी, 2021

त्रिदेव इंफ्रास्टेट्स लिमिटेड ( पूर्व का आशृतीष पेपर मिल्स लिमिटेड) ( सीजाइंपन 1.65100DL1988PL.C033812) रंजीकृत कावांलव : प्लॉट सं. 259, 'भूतल, त्रिदेव आपोर्टेस, स्वयं सेवा सीजीएचएस लिसेटेड, झितमिल कॉलीमी, दिल्ली-110095 ई-मेल : ashutoshpapermill&@gmail.com वेबसाइट : www.tridevinfraestates.in

अनमोदन करने के लिए निदेशक मंडल की बैठक शक्रवार, 12 फरवरी, 2021 को

तथा साथ ही स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com से एक्सेस की ज सकती है।

कृते त्रिदेव इंफ्राएस्टेट्स

तिथिः 04.02.2021 अतुल कुमार अग्रवात स्थान : दिल्ली



## NOTICE

lotice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEB (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, February 12, 2021 inter-alia, to consider and approve the un-audited standalone and consolidated financia

results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2020. In view of the same in terms of the Company's "Code of Conduct to Regulate, Monito and Report Trading by Insiders", Trading Window for trading in the shares of the Company has already been closed w.e.f. December 31, 2020 and shall remain closed

This Notice is available on BSE Limited website (www.bseindia.com), National Stock Exchange of India Limited website (www.nseindia.com) and also on the Company's website (www.pcjeweller.com) under the Investors section

For PC Jeweller Limited

Date: 04/02/2021

(Vijay Panv Company Secretary

### ओएनजीसी ongc

अभिरुचि की अभिव्यक्ति

एचपीएचटी एसेट– संयुक्त उपक्रम (जेवी) जिसमें ओएनजीसी तथा जीएसपीसी शामिल है जिसका प न्लावरम में ऑनशॉर गैस टर्मिनल है, के द्वारा प्रख्यात् सेवा प्रदाताओं से 18 माह की अवधि के लिये पीएनजीआरबी विनियमनों के अनुसार वांछित हाइड्रोकार्बन डेब प्वाइन्ट (एचसीडीपी) प्राप्त करने के लये सैल्स गैस के प्रॉसेसिंग के लिये प्रचालन एवं रखरखाव के साथ चिलर यनिट के हायरिंग के लिये 'पूर्व–योग्य होने'' के लिये पार्टियों को आमंत्रित किया जाता है।

कार्य के वृहत्त क्षेत्र, प्रत्याशित डेलिवरेवल्स, दस्तावेजों को जमा करने की तिथि एवं समय तथा पीक्यूसी डाउनलोड करने के लियेः औएनजीसी की निविदा वैवसाइट (link:https://tenders.ongc.co.in) देखें। अनुबंध के निष्पादन का स्थानः ओजीटी, पी. ल्लावरम गाँव, तल्लेरेवु मंडल, ईस्ट गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश, भारत-533463

जीएम (पी)-ओजीटी, ओएनजीसी, एचपीएचटी एसेट हर एक काम देश के नाम

मिंडा इण्डस्टीज लिमिटेड CIN: L74899DL1992PLCO50333



पंजी. कार्यालयः बी-64/1, वजीरपुर इण्डस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110052, Website: www.unominda.com Tel.: +91 11 4937 3931, +91 124 2290 427/28

Fax: +91 124 2290676/95 अंतरिम लाभांश के लिये अभिलिखित तिथि की सूचना एतटदारा सचित किया जाता है कि 4 फरवरी 2021 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल

ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिये रु. 2/- प्रति, पूर्णतः प्रदत्त की सम मूल्य की इक्विटी शेयरों पर 0.35 प्रति शेयर अर्थात 17.50% के अंतरिम लाभांश की घोषणा की है। उपरोक्त बैठक में घोषित अंतरिम लाभांश प्राप्त करने के लिये अधिकृत पात्र शेयरधारकों व

सुनिश्चित करने के लिये मंगलवार, 16 फरवरी, 2021 को ''अभिलिखित तिथि'' के रूप में निर्धारित मिण्डा इंडस्ट्रीज लि. के बोर्ड के लिये तथा उसकी ओर

तरुण कुमार श्रीवास्त कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिका तिथि: 4 फरवरी, 2021

स्थानः नई दिल्ली तिथिः 4.2.2021

यूनियन बैंक 🕼 Union Bank शाखाः 5 ई/3, बी.पी. नीलम रेलवे रोड एनआईटी, फरीदाबाद- 121001

कब्जा सूचना (प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के निय-इंडिया (इं–कॉर्पोरेशन बैंक) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सचना नीचे वर्णित तिथि को जारी कर ऋणधारक/गारन्टरों को उक्त सचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सचन में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधीहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का ल्था कर (लथा ह। विश्वीय रूप से ऋणधारकों/गार-टरों तथा आम जनता को एतर्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय वहीं नीचे वर्णित राशि के अतिरिक्त नीचे खाताओं के अंतर्गत वर्णित आगे के व्याज एवं अन्य खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के लिये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (ई– कॉर्पिरेसन बैंक) के चार्ज के अधीन होगा।

क्ष्णधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदद्वारा ऋणधारक/गारन्टर तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि आज, 2 फरवरी, 2021 को अधोहस्ताक्ष

हणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष

की जाती है।			
ऋणधारक ⁄गारन्टरों का नाम	अचल सम्पत्ति का विवरण	बकाया राशि	मांग सूचना
	एनआईटी फरीदाबाद-121001	रु. 4366211.63 (रुपये	तिथि
गारन्टर्सः 1. श्री एल एन खेरा, 2. श्री सी.पी. खेरा स्व. श्री हरीश खेरा के कानूनी उत्तराधिकारीः		तैंतालिस लाख छियासठ हजार	17.7.2020
<ol> <li>श्रीमती नीलम खेरा, 4. रुचिका खेरा, स्व. जगदीश खेरा के कानूनी उत्तराधिकारीः 5. श्री</li> </ol>			कब्जाकी तिथि
मुकेश खेरा, 6. श्रीमती सरोज खेरा, 7. श्री दीपक खेरा, 8. श्रीमती सोनिया ग्रोवर 9. सुश्री	377 वर्ग याङ्स	मात्र) तथा उस पर ब्याज	2.2.2021
सोनाली जोशी, सभी का सामूहिक पताः ८ए, 148, एनआईटी, फरीदाबाद–121001			2.2.2021
तिथि: 5.2.2021 स्थान: फरीदाबाद	प्रा	धकृत अधिकारी: यूनियन बँक ः	ऑफ इंडिया

## महान फूड्स लिमिटेड

CIN: L15419HP1987PLC007356 पंजी. कार्यालयः एम-19, 1ला तल, एम-ब्लॉक मार्केट, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-110048 टेली.: 011-43107200, फैक्स: 011-43107250 ईमेलः info@mahaanfoods.com

सूचना सेबी (सचीयन दायित्व तथा उदघाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ

तक बंद रहेंगे। उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.mahaanfoods.com पर र्भ

आयषी विज स्थानः नई दिल्ली तिथि: 4.2.2021

oCı

For Oracle Credit Limited

(Company Secretary & Compliance Officer) Date: 04.02.2021

NOTICE

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements 
regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the 
Company will be held on Friday, the 12th February, 2021 at the Registered Office of the 
Company at W-321, Ground Floor, Chirag Delhi, New Delhi- 110017 to consider, interalial 
Inaudited Financial Results of the Company for the quarter ended 31st December, 2020 
and other business, if any, with permission of the Board.

his intimation is also available on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) an letropolitan Stock Exchange of India Limited (www.msei.in) where the company's share re listed and shall also be available on the website of the Company (www.aayushfoods.com For Aavush Food and Herbs Limite

## **BERVIN INVESTMENT & LEASING LIMITED**

Regd. Office: 607, Rohit House, 3 Tolstoy Marg, New Delhi-110001 CIN: L65993DL1990PLC039397, Web: www.bervin.com, Email: secretary@bervin.co

SI.		Quart	er ended	Year ended
No.	Particulars	31.12.2020	31.12.2019	31.03.2020
		Unaudited	Unaudited	Audited
1.	Total Income from Operations	25.72	62.41	177.14
2.	Net Profit/(Loss) for the period before tax			
	(before Exceptional and/or Extraordinary items)	8.59	59.90	83.41
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax			
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	8.59	59.90	83.41
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax			
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	8.59	59.90	66.62
5.	Total Comprehensive Income for the period			
	(Comprising Profit/(Loss) for the period			
	(after tax) and other Comprehensive			
	Income (after tax)}	8.59	59.90	66.62
6.	Equity Share Capital	589.81	589.81	589.81
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)			
	as shown in the Audited Balance Sheet of	997.85	1,282.25	997.85
	the previous year)	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)			
l	(For continuing and discontinued operations)			
I	(1) Basic	0.15	1.02	1.41
	(2) Diluted	0.15	1.02	1.41

No Leasing Business has been undertaken during the quarter.
The above results were reviewed by the Audit Committee and thereafter taken of record and approved by Board of Directors at their meeting held on February 04, 2021. Figures for the quarter ended 31st December, 2019 and year ended 31st March, 2020 have been regrouped wherever necessary to make them comparable with figures of the current quarter ended 31st December, 2020.

As the Company is engaged in a single primary business segment, the disclosure requirement of Accounting Standard (AS-17) Segment Reporting' notified under Section 133 of the Companies Act, 2013, read together with paragraph 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and the relevant provisions of the Companies Act 2013 are not applicable

Place : New Delhi Dated : 04th February, 2021

वेबसाईटः www.mahaanfoods.com

राजा ( पूजानमा जावण राजा उन्होंना जावाग ) जानाममा, या जानाममा में में स्तार पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतहहारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निर्देशक मंडल की एक बैठक शुक्रवार, 12 फरवरी, 2021 को आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयं के साथ 31 दिसम्बर 2020 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार क उसे अभिलेख में लिये जाएंगे।

पुनः सेवी (इत्यायडर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन, 2015 के विनियमन 9 के अनुसार इन्सायडर ट्रेडिंग रोकने के लिए कम्पनी की आचार संहिता के अनुसार कम्पनी की प्रतिभृतियों में ट्रेडिंग विण्डो जो पहले से ही बंद है, उपरोक्त परिणामों की घोषणा की तिथि के बाद 48 घंटे की समाण्डि

तिथि: 03.02.2021 बोर्ड के आदेश सं पैरामाउन्ट कम्युनिकेशन्स लि. महान फूड्स लिमिटेड के लिटे हस्ता.

कम्पनी सचिव-सह-अनुपालन अधिकार्र

ORACLE CREDIT LIMITED Regd. Off: P-7, Green Park Extension, New Delhi-110016 CIN: L65910DL1991PLC043281 E-mail: oracle\_credit@yahoo.co.in, info@oraclecredit.co.in NOTICE OF BOARD MEETING

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Meeting of the Board of Directors of the company will be held on Thursday, February 11, 2021 at the Registered Office of the Company at P-7, Green Park Extension, New Delhi-110016, Inter-alla, to consider, approve at take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2020.
This information may be accessed on the Company's website at www.oraclecredit.co.in and on the Stock Exchange's website at

AAYUSH FOOD AND HERBS LIMITED

Regd. Office: W-321, Ground Floor, Chirag Delhi, New Delhi-110017
W: www.aayushfoods.com E-mail: aayushfoodherbs@gmail.com
CIN: L01122DL1984PLC018307 Tel.: 011-41009092, 46095455

Company Secretary

Statement of Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter Ended 31st December, 2020

SI.		Quart	er ended	Year ended
No.	Particulars	31.12.2020	31.12.2019	31.03.2020
		Unaudited	Unaudited	Audited
1.	Total Income from Operations	25.72	62.41	177.14
2.	Net Profit/(Loss) for the period before tax			
	(before Exceptional and/or Extraordinary items)	8.59	59.90	83.41
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax			
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	8.59	59.90	83.41
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax			
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	8.59	59.90	66.62
5.	Total Comprehensive Income for the period			
	(Comprising Profit/(Loss) for the period			
	(after tax) and other Comprehensive			
	Income (after tax)}	8.59	59.90	66.62
6.	Equity Share Capital	589.81	589.81	589.81
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)			
	as shown in the Audited Balance Sheet of	997.85	1,282.25	997.85
	the previous year)	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)			
l	(For continuing and discontinued operations)			
I	(1) Basic	0.15	1.02	1.41
	(2) Diluted	0.15	1.02	1.41

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed wit the Stock Exchanges for the Quarter Ended 31 December, 2020 under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed format of the same is available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) & Company's website (www.bervin.com)

For and on behalf of the Board of Direct

S. K. Murgai (Director) DIN : 00040348

भाष : +91–11–45618800-५०७, १०वस : +71–11–2000. भेल : pcl@paramountcables.com, वेबसाइट : www.paramountcables.com सेबी ( सचीयन दायित्व तथा उदघारन अपेक्षा) विनियमन 2015 के विनियमन 47 के साध

PARAMOUNT

शाकम्भरी पल्प एंड पेपर मिल्स लिमिटेड के लि

कम्पनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी

आयुषी गुप्त

पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशव मंडल की एक बैठक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय सी-125, नारायणा, औद्योगिक क्षेत्र केज−1, नई दिल्ली−110028 में बृहस्पतिवार, 11 फरवरी, 2021 को 4.00 अप. i आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ ही 31 दिसम्बर, 2020 को समाप तिमाही के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे।

शाकुम्भरी पल्प एंड पेपर मिल्स लिमिटेड

सूचना

न्या (जुनाव सामार्थ के पर्युवारा जरका) (साममार्ग, 2004 सामार्थमा ५० तक्षा ताजा सामार्था २० अ मृतावतन में एलदहारा सुचित किया जाता है कि कम्पानी के निदेशक मंडल की एक बैठक शुक्रवार, 12 फरवरी 021 को 1.00 बने अप. में कम्पानी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के अलाव

दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनमोदन व

डिंग की रोक थाम के लिये आचार संहिता के अंतर्गत शामिल निदेशक/अधिकारी/विनिर्दिष्ट कर्मचारियों/प्रवर्तकों व . लये टेडिंग विण्डो पहले से ही बंद है तथा उपरोक्त बोर्ड की बैठक की पर्णता के बाद 48 घंटे तक बंद रहेंगे।

सूचना का विस्तृत विवरण कम्पनी की वेबसाईट www.shakumbhripalp.com तथा स्टॉक एक्सचैंज

. से अभिलेख में लिये जाएंगे।

बसाईट www.msei in पर भी उपलब्ध होंगे।

IN: L74899DL1994PLC061295 जी. कार्यालयः पैरामाउन्ट हाउस, सी-125, नारायणा मीद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110028 १रमाष: +91-11-45618800-900, फेक्स: +91-

तिथि: 05.02.2021

सेबी ( सचीयन दायित्व एवं उदघाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29

CIN:L21012UP1986PLC007671 ा: 4.5 कि.मी., भोपा रोड, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश-251001 वेबसाईट:https://shakumbhripulp.com

विडियो–कान्फ्रेंसिंग सुविधा द्वारा इलेक्ट्रानिक रूप से बोर्ड के सदस्यों की भागीदारी की ' व्यवस्था की गई है।

यह जानकारी कंपनी की वेबसाईट अर्थात www.paramountcables.com तथा सा स्टॉक एक्सचेंज जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, अर्थात् बीएसई लिमिटेड के वेबसाइट (www.bseindia.com) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड व वेबसाईट (www.nseindia.com) पर उपलब्ध सूचना में भी शामिल है।

पैरामाउन्ट कम्यनिकेशन्स लि. के लिए

हस्ता./ (राशि गोयल अनुपालन अधिकारी एवं <u>कम्पनी</u> सचिव

कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट एण्ड होल्डिंग्स लिमिटेड सीआईएन : L33200UP1993PLC015474

पंजीकृत कार्यालय : १० किमी, हापुड़-बुलन्टशहर गेंड, पोओं. गुलावदी, जिला बुलन्टशहर-203408 मुख्य कार्यालय : प्लॉट नं. 12, सेक्टर-बी-1, लोकल श्रांपिंग कॉम्पलेक्स, वसन्त नेक्स, वसन्त कुंज, नई दिल्ली-110070 गप : 011-40322100, ई-मेल : es\_cfhl@jindalgroup.com; वेबसाइट : www.c

**सूचना** नूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के प्रावधानों के अनुसार सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शुक्रवार, 12 फरवरी, 2021 क . इम्पनी के प्रधान कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ ३1.12.2020 व

समाप्त तिमाही तथा नी माही के अनंकेश्वित वित्तीय परिणामी पर विचार एवं अनुमोदन तथा ''प्रवर्तत रवं प्रवर्त्तक समृह'' श्रेणी से ''सार्वजनिक'' श्रेणी में श्रीमती आकृति अंकित अगरवाल तथा मै. आकृति ट्रस्ट के पुनर्वर्गीकरण के लिये पोस्टल बैलंट सूचना के अनुमोदन पर विचार किये जाएँगे। कॉपीरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा कोविड-19 द्वारा उत्तन्न चुनैती के कारण उसके अंतर्गत निर्मित निपमी (''एमसीए सक्युंक्स'') तथा लागू होने वाले अन्य कार्नुनों एंव विनियमनों के अनुपालन में कम्पनी द्वारा साधारण तथा विशेष प्रस्तावों को पारित हरने पर <sup>''</sup>स्पष्टीकरण'' के संदर्भ में साधारण सर्क्युलर नं. 14/2020 तिथि 8 अप्रैल, 2020 एर त्याचार्य सर्वयुक्त नं 17/2020 तिथि 13 आप्रैल, 2020 स्वाधारण सर्वयुक्त नं 17/2020 तिथि 31 इसम्बद्ध, 2020 तथा सेवी सर्वयुक्त सेवी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी 2रसीआईआर/पी/2021/11 तिथि 5 जनवरी, 2021 के साथ पठित उसके अंतर्गत निर्मित नियमों (इस समय में लागू उसके किसी सोविधिक सेशोधनों, युधारों अथवा पुनरीक्षणों सिंहत) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 के ब्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी पोस्टल बैलॅट (''पोस्टल बैलॅट'') तथा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (''ई– वोटिंग'') द्वारा कन्सोलिडेटेड फिनवेस्ट एण्ड होल्डिंग्स लिमिटेड (''कम्पनी'') के शेयरथारकों की व्यीकृति प्राप्त कर रही है। कोविड-19 महामारी से उत्पन्त चुनौती के कारण डाक अथवा कृरियर से ग्रेस्टल बैलॅट सुचना, पोस्टल बैलॅट प्रपत्र/स्व-पता लिखित लिफाफे आदि के प्रेषण में कठिनाई के कारण कम्पनी नियत समय पर इलेक्ट्रॉनिक पद्धत्ति में यह पोस्टल बैलॅट सूचना केवल उन सदस्यों को

हा प्रापत करगा जिनक इ-मल पत कम्पना।हिषाजिंदरा पारदेशयन्द क पास पजाकृत है। यह कम्पन लिक इन्दाह मंडिया प्राइदेश विनिष्टेड (एजाकांड्राईपिएल) हाग ई-योदिंग सुविधा उपलब् कराएगी। सदस्यगण पोरहाट बैलंट सुचना में प्रस्तावित प्रस्तावों के संदर्भ में रिमीट ई-वोटिंग द्वार मतदान कर सकते हैं। वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एवं निर्देश युचना में उपलब्ध होंगी। कम्पनी के पोरटन बैलंट युचना की ई-कांग्री कम्पनी की येवसाईट vwww.consofinvest.con तथा साथ ही बीएसई लिमिटेड (बीएसई) www.bscindia.com तथा नेमलन स्टॉक एक्सचैंज

हीं प्रेषित करेगी जिनके ई–मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसपैन्ट के पास पंजीकृत है। यह कम्पन

ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाईट www.nseindia.com पर उपलब्ध होगी। यदि आपका ईमेल पता कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट के पास पंजीकत नहीं है तो कपया नीचे वर्णि रूप में उसके पंजीकरण की प्रक्रिया का अनुसरण करें (कृपया 11.2.2021 से पूर्व उसे अपडेट कराएं भौतिक धारिता फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र (फ्रान्ट एव बैंक) की स्कै की गई प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधा

कार्ड की रवत: सत्यापित स्कैन की गई प्रति उपलब्ध कराते हुए ईमेल पते के पंजीकरण के लिये delhi@linkintime.co.in पर कम्मनी के उजिस्ट्रात तथ अंतरण एजेन्द्रा, लिंक इन्टाइम इंडिया प्राईवेट लिमिटट के पास अनुरोध भेजें। कृपया, यदि पहले से वह पंजीकृत नहीं है, तो फोलियों ने का उल्लेख करते हुए हमारे आरटीए (अर्थात् लिंक इन्टाइम इंडिया प्रा.लि. नोबल हाइट्स, 1ला तल, प्लॉट ने एनएच 2, एलएससी सी ब्लॉक, सावित्री मार्केट के निकट, जनकपुरी, नई दिल्ली 110058 के पास मूल निरस्त चालान के साथ अपने बैंक का विवरण भेजें।

कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट (डीपी) से सम्पर्क करें तथा डीपी की सलाह प्रक्रिया का अनुसरण कर अपना ईमेल पता पंजीकृत कराएं। कृपया कम्पनी द्वारा यदि, घोषित होता है, अपनी खाता में लाभांश भुगतान के लिये अपने डीपी के पास अपने बैंक के विवरणों को भी अद्यतन कराएं।

स्यगण ध्यान रखें कि यदि आपका ईमेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसपैन्ट के पास पंजीक रस्याण व्यान रेख भार वार्ष आपना इसरा जाड़ा आन्याशाव्याणार गांदर गांदर गांदर गांदर गांदर गांदर गांदर तो सिगोर ई-वोटिंग के लिए लागिन क्रेडेस्थियरस्य पोस्टल बेलॅंट सूचना के साथ पंजीकृत ई-नेल ए र भेजा जायेगा। लेकिन, जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं कराये हैं, वे उपरोव प में ईमेल आईडी के पंजीकरण की प्रक्रिया का अनुसरण करें।

उपरोक्त सुचना कम्पनी के सभी सदस्यों की जानकारी तथा लाभ के लिए तथा एमसीए सक्युलर्स तथ सेवी सक्युंलर के अनुपालन में जारी की जा रही है। यह सुचना कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् www.consofinvest.com एवं स्टॉक एक्सचैंज की बसाईट www.nseindia.com एवं www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है

कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट एण्ड होल्डिंग्स लिमिटेड के लिंहे

(कम्पनी सचिव

तिथि: 3 फरवरी, 2021

पीएनसी इन्फ्राटेक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः एनबीसीसी प्लाजा, टावर II, 4था तल, पुष्प विहार, सेक्टर-5, नई दिल्ली-110017 CIN: L45201DL1999PLC195937, ईमेलः complianceofficer@pncinfratech.com, वेबसाईटः www.pncinfratech.com

31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही तथा नौ माही के वित्तीय परिणामों का सार

					( ईपीएस	। को छोड़कर	रु. लाखों में
			स्टैण्डएलॉन			समेकित	
क्रम	ा विवर <b>ण</b>	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त नौ माही	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त नौ मार्ह
सं.		( 31.12.2020 ) अनंकेक्षित	( 31.12.2019 ) अनंकेक्षित	( 31.12.2020 ) अनंकेक्षित	( 31.12.2020 ) अनंकेक्षित	( 31.12.2019 ) अनंकेक्षित	( 31.12.2020 ) अनंकेक्षित
1.	प्रचालनों से कुल आय	134668.08	123235.53	333931.77	161692.69	140966.27	401106.69
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के पूर्व)	15936.99	11278.85	35383.75	23686.87	9825.08	48677.14
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	15936.99	11278.85	35383.75	23686.87	9825.08	48677.14
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/ अथवा असाधारण मदों के बाद)	10317.25	7713.94	23256.09	17614.34	6690.43	34654.61
5.	अवधि के लिये कुल व्यापक आय (अवधि के लिये लाभ/(हानि) (कर से बाद) तथा अन्य व्यापक आय (कर से बाद) से शामिल	10367.87	7690.25	23407.96	17678.78	6666.62	44848.26
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	5130.78	5130.78	5130.78	5130.78	5130.78	5130.78
7.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के अनंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाई गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर )	-	-	-	-	-	-
8.	आय प्रति शेयर (रु. 2/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) 1. मूल						
	2. तरल	4.02	3.01	9.07	6.87	2.61	13.51

1) उपरोक्त सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंजों में दाखिल की गई तिमाही/ नौ माही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही/नौ माही वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट (www.bseindia.com, www.nseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाईट (www.pncinfratech.com) पर उपलब्ध है।

2) उपरोक्त स्टैण्डएलॉन/ समेकित परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 03 फरवरी, 2021 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनमोदित किए गए।

पीएनसी इन्फ्राटेक लि. के लिए हस्ता चक्रेश कुमार जैन प्रबंध निदेशक

(DIN: 00086768)

स्थानः आगरा तिथि: 03 फरवरी, 2021

पैन इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड ती. कार्याः 711, 7वाँ तल, नई दिल्ली हार 27, बागखम्बा रोड, नई दिल्ली–110001 CIN: L72200DL1984PLC017510

सुचान संस्थी (सूचीयन दिवान 47 तथा लागू होने वाले अन्य विनित्यमनी, 2015 के विनित्यमनी, 29 के प्राथ्यमाँ के अत्युव्यन में प्रत्यहात मुंखन किया जाती, होने कि कम्पनी के निदंशक मंडल की एक बैठक वृश्यस्य 10 फरवरी, 2021 की 2,30 बांके अप, मैं कम्पनी के पंजी, कार्यों : 211, 7यों तल, नई दिल्ली हाउस, 27 बाराझम्बा गेंड, नई दिल्ली-110001 में आयोंकित की जाएणि जिसमें अन्य विषयों के साथ वा दिवासम, 202 को समास दिमाडी के अनंकेडिका र्टंडिएएनी एवं समिकित हार्बी, प्राणार्थों कर प्राथान के प्रतिकृतिक रहिं को समाप्त तिमाहा के अनकाक्षत स्टडएलान एवं समाक वित्तीय परिणामों तथा एजेण्डा में वर्णित किसी अन् व्यावसायिक मदों पर विचार, अनुमोदन कर उर्रे अभिलेख में लिये जाएंगे। यह जानकारी कम्पनी की वेबसाईट www.panindi

orp.com तथा स्टॉक एक्सचैंजों जहां कम्पनी व acorp.com तथा स्टाक एक्सपाना जा कम्माना व ग्रेगर सुचोधाळ है, की येवसाई www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है। पैन इंडिया कॉर्पोरशन लिमिटेड के लिए स्थान: नई दिल्ली हस्ता./-तिथि: 4.2.2021 विजय पाल ग्रुक्त

बैठक गुरुवार, 11 फरवरी, 2021 को जिंदन आईटीएफ केंद्र, 28, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली—110015. में आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त तिसरी तिमाडी हेतु कंपनी के लिए अ-लेखापपीक्षित (स्टब्डालोन और कंपोलिंडेंटेड)

ात्तीय परिणाम विचारित एवं अनुमोदित किए

नेबी (अंतरगी व्यापार निषेध) विनियमावली

तथा (अंतरना व्यापार निष्ध) विनयमावला, 2015 के तहत अंतरनी व्यापार की रोकथाम के लिए आचार सहिता के अनुसरण में, व्यापार खिड़की, उपरोक्त वित्तीय परिणामों के प्रकटन

www.jindalinfralogistics.com पर तथ

www.bseindia.com तथा www.nseindia.com प

देखी जा सकती है, जहां कम्पनी के शेर

ऋण वसली न्यायाधिकरण-।।। दिल्ली

चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली—110001

ओ.ए सं. 562/2019 के मामले में

वेबसाइट्स नामत

आलोक कुमार कम्पनी सचिव एसीएस : 19819

ने 48 घंटे तक के लिए बंद रहेगी।

टॉक एक्सचेन्ज

स्थान : नई दिल्ली तिथि : 03—02—2021

नाएंगे ।

जेआईटीएफ इन्फ्राल्जिस्टिक्स लिमिटेड पंजी. कार्यालय : ए—1, यूपीएसआईडीसी इंड. एरिया, नंदगांव रोड, कोसी कलां, जिला मथुरा — 281403 सीआईएन : L60231UP2008PLC069245 भूचना तदद्वारा सेबी (सूचीयन दायित्व और कटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमावली, 2015 के वेनियम 47 के अनुसरण में सूचना दी जाती के कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक

अनुपालन अधिक

सूचना सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकट अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसार एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अन्य बातों के साथ-साथ 31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों एवं अन्य प्रकार्य, यदि कोई हो, पर विचार तथा

आयोजित की जायेगी। इस सूचना में निहित सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.tridevinfraestates.in

ह.∕

बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के बकाया ऋण की वसूली अविनियम, 1993 की घारा 19(4) के साथ पठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया नियमावली, 1993) के नियम 12 एवं 13 के तहत नोटिस ( निदेशक ) पंजाब नैशनल बैंक

सूनीता कुमार एवं अन्य सेवा में.

सवा म. अमिली सुनीता कुमारी पत्नी श्री गणेश कुमार, निवासी: 351, गली नीम वाली रोशनजाग रोड, दिल्ली–110007, <u>और</u>. 58, प्रेमनगर, शक्ति नगर, दिल्ली–110007, और: यूर–847, जवाहर नगर कमला नगर, देल्ली—110007। डी-2 श्री सुमित राठौर पुत्र सुरेश कुमार निवासी 234, ई-ब्लॉक, कृष्णा विहार, सुर्तान पुरी, एफ ब्लॉक, दिल्ली-110086 जबकि सपरोक्त नामक आवेदक ने आपके विरूद

एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरः एक वाद स्थापित क्या ह तथा जवाक न्यायाधकरण को संतोषप्रद रूप से यह दशीया जा बुका है कि आपको साधारण रूप से नोटिस दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए, विज्ञापन के रूप में इस नोटिस के मध्यम से आपको तिनांक 10-32-2021 को पूर्वाह 10.30 बजे इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपिस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इर

सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपरिथति में कि चल रही महामारी की स्थिति के कारण, सभी मामलें को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और उस उद्देश्य के लिए लिया जाएगा:—

न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, वाद

सभी अधिवक्ता / पात्रगण सिस्को वेबेक , प्लीकेशन / सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे; "रजिस्टार / रिकवरी ऑफिसर- । / औ रिकरी ऑफिसर—।। द्वारा प्राप्त की जाने वाली सुनवाई के मामलों की अगली तारीख के लिए "मीटिंग आईडी" और "पासवर्ड" DRI की आधिकारिक विथि से एक दिन पहले उपलब्ध होगी। पब्लिक नोटिस हेड के तहत पोर्टल अर्थात

(iii) किसी भी जानकारी हेतु, एडवोकेट्स, लिटिगेंट्स संबंधित अधिकारी से फोन 23748469 पर संपर्क कर सकते हैं।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर व तहत 11 जनवरी, 2021 को दिया गया। न्यायाधिकरण के आदेशानुसा हस्ता / – सहायक रजिस्ट्रार, डीआरटी–।।।, नई दिल्ली